

## सिम्बियोसिस लॉ स्कूल ने कानूनी स्वयंसेवकों के लिए सत्र आयोजित किया

Legal Aid Center SLS, NOIDA <lac@symlaw.edu.in>

Mon, Aug 20, 2018 at 5:57 PM

To: Neelu Mainwal <neelmainwal1@gmail.com>

Cc: Rahul Sharma <rahuldsagbn@gmail.com>, "Dr. C. J Rawandale" <director@symlaw.edu.in>

Bcc: JAYANTI MISHRA <jayantimishra2008@gmail.com>, Shashwat Patwa <shashwat.patwa@gmail.com>, Pranov Tiwari <pranov12jan@gmail.com>

सिम्बीओसिस लॉ स्कूल , सेक्टर 62, नोएडा ने 20 अगस्त, 2018 को जिला विधिक प्राधिकरण के साथ मिलकर अपने लीगल एड सेंटर के 35 वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। इस शिविर की मुख्य अतिथि, श्रीमति नीलू मेनवाल (सिविल जज, सीनियर डिजिटल एवं सचिव जिला विधिक प्राधिकरण, गौतमबुद्ध नगर) ने असिस्टेंट प्रोफेसर अंकुर शर्मा (हेड, लीगल एड सेंटर, सिम्बीओसिस लॉ स्कूल, नोएडा) के साथ मिलकर वॉलंटियर्स को सम्बोधित किया और उन्हें समाज के प्रति अपने पेशेवर कर्तव्यों के बारे में याद दिलाया।

श्रीमति नीलू मेनवाल जी ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण कि सेवाओं पे रोशनी डाली। साथ ही साथ उन्होने और मुद्दों के अलावा घरेलू विवादों को प्रेम और सूझबूझ सहित सुलझाने और लोक अदालत एवं मीडियेशन सेंटर की अहम भूमिका के बारे में जानकारी दी। तत्पश्चात को-कनवीनर शाश्वत ने वॉलंटियर्स को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के बारे में समझाया और को-कनवीनर प्रणव ने वॉलंटियर्स को उनकी जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्व से अवगत कराया।

श्रीमति नीलू मेनवाल जी ने जिला विधिक प्राधिकरण की तरफ से वॉलंटियर्स का मार्ग दर्शन किया और उनको आगे बढ़ने में पूर्ण सहायता प्रदान करने का वादा किया।

श्री अंकुर शर्मा ने स्वयंसेवकों से आग्रह किया कि वे न्याय के लिए इस प्रयास में समाज के हाशिए वाले वर्ग की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हो। इस शिविर में वॉलंटियर्स ने खूब उत्साहपूर्वक भाग लिया और मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करने का संकल्प लिया .

PFA photograh of the event.

### 2 attachments



IMG\_20180820\_154037 (1).jpg  
1520K



IMG\_20180820\_154431 (1).jpg  
1316K